



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

फरवरी 21, 2025

संख्या 8

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट-बढ़	
	फरवरी 16	फरवरी 7	फरवरी 14	समाह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3417080	3596653	3606059	9406	188980
1.1 संचलन में नोट	3417066	3596638	3606046	9407	188979
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	13	15	14	-1	1
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	101	100	100	0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	43	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	962424	878388	953498	75110	-8926
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8631	7929	7798	-130	-833
2.6 अन्य बैंक	52654	51272	50629	-644	-2025
2.7 अन्य	645800	445176	421223	-23953	-224577
3 अन्य देयताएं	1709574	2124837	2110913	-13924	401340
कुल देयताएं / आस्तियां	6796305	7104399	7150264	45865	353959
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4573425	4793155	4719554	-73601	146129
2 सोना	393310	631357	643824	12467	250513
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1361828	1317755	1358494	40740	-3334
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	13292	35454	25646	-9809	12354
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	265341	185420	261331	75911	-4010
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	35	0	0	-	-35
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	169283	117420	116916	-505	-52367
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	17727	21774	22436	661	4709

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	फरवरी 14, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			समाह		मार्च 2024 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5519832	635721	-60894	-2540	128576	-10698	405100	19624
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां #	4685135	539591	-72318	-4515	-76710	-31359	154147	-6192
1.2 स्वर्ण	643824	74150	12467	1942	204505	21475	250513	26773
1.3 विशेष आहरण अधिकार	155398	17897	-921	19	4175	-234	5076	-210
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	35476	4083	-122	14	-3393	-579	-4636	-748

* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

फरवरी 21, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹ 912240 करोड़	2025												
	फरवरी 8	फरवरी 9	फरवरी 10	फरवरी 11	फरवरी 12	फरवरी 13	फरवरी 14	फरवरी 15	फरवरी 16	फरवरी 17	फरवरी 18	फरवरी 19	फरवरी 20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	912735	910180	913487	937613	914470	906852	960192						
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	100.1	99.8	100.1	102.8	100.2	99.4	105.3						

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	फरवरी 7, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2023-24	2024-25	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	280329	5748	47300	-14142	59698	6910
1.2 बैंकों से उधार	111794	-32379	115582	-70635	107092	-70987
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	35258	5803	12409	-37194	14378	-35675
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	22334601 (22271598)	208029	2151468 (2037014)	1859375	2421856 (2307402)	2139219 (2190671)
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.9	11.9 (11.3)	9.1	13.6 (13.0)	10.6 (10.9)
2.1.1 मांग	2498428	-12486	138833	54574	227958	179164
2.1.2 मीयादी	19836174	220515	2012635	1804800	2193898	1960055
2.2 उधारियां	940558	-13421	349489	162616	331620	145740
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1048172	57251	129677	110744	145037	128844
3 रिज़र्व बैंक से उधार	185420	-168678	88257	-37296	108162	-67922
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	962219	-12505	92044	-58697	81001	-29995
4.1 उपलब्ध नकदी	83830	-999	-4812	-5603	-20365	-1621
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	878388	-11506	96856	-53094	101366	-28375
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	206200	9595	5755	7872	7277	7023
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	17475	3612	-10160	5120	2620	2770
5.3 बैंकों को अग्रिम	36252	-2536	3918	-12116	3418	-8850
5.4 अन्य आस्तियां	67744	7080	41252	-47680	42977	-40637
6 निवेश	6669290	33764	639498	562732	786686	614644
	(6618409)		(546668)		(693855)	(656593)
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.5	11.8 (10.1)	9.2	14.9 (13.2)	10.2 (11.0)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6668796	33774	639576	563187	786785	614899
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	494	-10	-77	-455	-99	-255
7 बैंक ऋण	17965275	96796	2472241	1533111	2729416	1817798
	(17529632)		(1923921)		(2181096)	(1930476)
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.5	18.1 (14.1)	9.3	20.3 (16.3)	11.3 (12.4)
7 क.1 खाद्य ऋण	53945	-2234	26536	30864	2146	7503
7 क.2 खाद्यतर ऋण	17911330	99030	2445705	1502247	2727270	1810296
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	17642060	92791	2446321	1507757	2690049	1770833
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	73539	1727	13186	13072	16853	20919
7 ख.3 भुनाए गए	212518	3103	22757	15160	31449	26851
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	15330	-241	-3283	-1082	-1977	-932
7 ख.5 भुनाए गए	21827	-583	-6739	-1797	-6958	127

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2024	2025				
	फरवरी 16	जनवरी 17	जनवरी 24	जनवरी 31	फरवरी 7	फरवरी 14
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	..	..	4.42	..	4.32	..
	..	..	(4.41)	..	(4.31)	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	78.99	..	78.71	..
	..	..	(80.76)	..	(80.44)	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	..	..	89.98	..	85.48	..
	..	..	(86.98)	..	(82.45)	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	29.85	..	29.72	..
	..	..	(29.99)	..	(29.86)	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	..	..	33.60	..	31.68	..
	..	..	(32.03)	..	(30.26)	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	6.50	6.50	6.50	6.25	6.25
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर *	6.25	6.25	6.25	6.25	6.00	6.00
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.50	6.50
बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.50	6.50
आधार दर	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.00/8.60	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत और औसत)	6.71	6.59	6.57	6.57	6.44	6.32
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.05	6.60	6.61	6.56	6.47	6.44
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.18	6.72	6.71	6.67	6.58	6.57
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.15	6.70	6.68	6.63	6.54	6.55
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.10	6.78	6.75	6.71	6.73	6.74
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया @						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.04	86.58	86.29	86.64	87.48	86.89
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	89.35	89.08	90.21	90.01	90.76	90.86
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.27	3.12	2.90	2.80	2.66	3.34
3-माह	1.57	3.16	2.89	2.69	2.63	2.89
6-माह	1.55	2.65	2.43	2.30	2.31	2.37

* प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका / डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।
कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2024	2025	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2023-24		2024-25		2024		2025	
	मार्च 31	फरवरी 07	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	24831618 (24939860)	26881061 (26944063)	252301 (251065)	0.9 (0.9)	2127767	9.5	2049443 (2004203)	8.3 (8.0)	2483526	11.3	2409533 (2358082)	9.8 (9.6)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410276	3536983	33381	1.0	74387	2.3	126707	3.7	143750	4.5	186160	5.6
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2586888	2639943	-11769	-0.4	141287	6.1	53055	2.1	230996	10.4	178058	7.2
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	18739918 (18848160)	20592208 (20655211)	223056 (221820)	1.1 (1.1)	1906128	11.4	1852290 (1807050)	9.9 (9.6)	2088884	12.7	2017113 (1965662)	10.9 (10.5)
1.4 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	94536	111927	7633	7.3	5964	7.7	17391	18.4	19896	31.2	28201	33.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016 (7603571)	8143783 (8194665)	206257 (206263)	2.6 (2.6)	96600	1.3	631768 (591094)	8.4 (7.8)	477598	7.0	881650 (839702)	12.1 (11.4)
2.1.1 रिजर्व बैंक	1193213	1220379	172486		-452644		27166		-218245		221898	
2.1.2 अन्य बैंक	6318803 (6410358)	6923404 (6974286)	33771 (33777)	0.5 (0.5)	549245	9.6	604602 (563928)	9.6 (8.8)	695844	12.5	659753 (617804)	10.5 (9.7)
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	16672145 (17202832)	18332689 (18768332)	102271 (96325)	0.6 (0.5)	1923051	13.3	1660543 (1565500)	10.0 (9.1)	2197523	15.5	1980002 (1867324)	12.1 (11.0)
2.2.1 रिजर्व बैंक	14406	20792	-1968		-17371		6386		-2673		11614	
2.2.2 अन्य बैंक	16657739 (17188426)	18311897 (18747540)	104239 (98294)	0.6 (0.5)	1940422	13.5	1654158 (1559114)	9.9 (9.1)	2200195	15.6	1968388 (1855710)	12.0 (11.0)
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5567504	5790997	152267	2.7	363265	7.4	223494	4.0	505437	10.6	515707	9.8
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	33432	35683	0	0	2602	8.6	2251	6.7	3097	10.4	2795	8.5
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	4953478 (5467477)	5422092 (5845613)	208495 (203791)	4.0 (3.6)	257751	6.1	468614 (378136)	9.5 (6.9)	700129	18.7	970622 (867447)	21.8 (17.4)
2.5.1 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1790134	2108359	121362	6.1	118534	7.5	318225	17.8	170871	11.1	402000	23.6

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2024	2025	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2023-24		2024-25		2024		2025	
	मार्च 31	फरवरी 14	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4631446	4763405	81233	1.7	168572	3.8	131958	2.8	269343	6.3	208074	4.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3511461	3642063	9407	0.3	71433	2.1	130601	3.7	119619	3.6	192109	5.6
1.2 रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	1025449	1011925	74336	7.9	93232	10.0	-13523	-1.3	135009	15.2	-11783	-1.2
1.3 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	94536	109417	-2510	-2.2	3907	5.0	14880	15.7	14714	22.0	27749	34.0
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1193213	1242028	21649		-382994		48815		-180622		173896	
2.1.1 रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1186655	1216424	31457		-395495		29769		-181490		161543	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-46147	216199	106355		280835		262346		156359		29806	
2.2.1 बैंकों पर रिजर्व बैंक के निवल दावे	-60553	190264	101212		296646		250817		157161		14610	
2.3 रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5241083	5363066	-61224	-1.1	377431	8.2	121984	2.3	481817	10.7	398021	8.0
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	33432	36017			2602	8.6	2585	7.7	3097	10.4	3130	9.5
2.5 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1790134	2093905	-14453	-0.7	109302	6.9	303771	17.0	191307	12.7	396778	23.4

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
फरवरी 10, 2025	-	-	201310	-	4125	67439	-	-	-	137996
फरवरी 11, 2025	-	-	200036	-	3498	71434	428	-	-	132528
फरवरी 12, 2025	-	-	193865	-	2561	48110	-	-	-	148316
फरवरी 13, 2025	-	-	235619	-	1988	54539	-	-	-	183068
फरवरी 14, 2025	-	-	225019	-	641	71090	798	-	40000	195368
फरवरी 15, 2025	-	-	-	-	422	101167	-	-	-	-100745
फरवरी 16, 2025	-	-	-	-	91	84644	-	-	-	-84553

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा.

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2023	2024		2025	वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	दिसंबर	जनवरी	दिसंबर	जनवरी	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	185.7	185.5	195.4	193.5	-1.0	4.1	4.3
1.1 ग्रामीण	187.6	187.3	198.4	196.0	-1.2	4.4	4.6
1.2 शहरी	183.6	183.5	192.0	190.6	-0.7	3.8	3.9
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	138.8	138.9	143.7	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	151.8	151.2	155.4	154.7	-0.5	2.2	2.3
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	182.8	181.4	193.8	189.9	-2.0	3.7	4.7
3.2 ईंधन और बिजली	155.8	154.9	149.9	150.6	0.5	-1.0	-2.8
3.3 विनिर्मित उत्पाद	140.0	139.7	143.0	143.2	0.1	2.2	2.5

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जनवरी 24, 2025	499397	30081	7.07 - 7.88
फरवरी 07, 2025	519277	71094	7.03 - 7.83

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जनवरी 31, 2025	456483	69001	7.12 - 13.77
फरवरी 15, 2025	479257	80693	6.97 - 12.40

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	फरवरी 16, 2024	फरवरी 07, 2025	फरवरी 14, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	17244	23493	22880
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	5679	968	6963
3 त्रिपक्षीय रेपो	694577	645390	788692
4 बाजार रेपो	632042	568944	658189
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	2527	8450	7343

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

फरवरी 14, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	7326	15967	82315	221515
182-दिवसीय	38165	53182	7422	183722
364-दिवसीय	73520	112772	36583	370583
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2024-25 (फरवरी 14, 2025 तक)	2023-24 (फरवरी 16, 2024 तक)	2023-24	2024-25 (फरवरी 14, 2025 तक)	2023-24 (फरवरी 16, 2024 तक)	2023-24
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1295697	1513000	1543000	934275	1072871	1102871
2. राज्य सरकारें	777559	753246	1007058	519101	512163	717140

WSS वेब पृष्ठ पर पनाएं त उन पर आधारित क वपरणा WSS ह ततपुत्तितक । (<https://rbi.org.in/web/rbi/-/publications/a-handbook-on-rbi-s-weekly-statistical-supplement-15762>)

म उप ध ह ।

समरूंख । आंक षं टरनषट पर <https://data.rbi.org.in/> म उप ध ह ।

री जरी. वि. ननए , निदषशक द्ारा भारतरीय रि वर्व क , शहीद भगितसहोण , फोदु ई - 400 001 की ओर से संपादित एं पकार्शित हैं ।